CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED

Head Office: Plot No.12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi – 110070 Ph:91-11-40322100 CIN:L33200UP1993PLC015474 Website:www.consofinvest.com

Ref: CFHL/SECTT/SEP21/423

Dated: 17th February 202

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1
Block – G, Bandra-Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai –400 051.

Re: Symbol: CONSOFINVT

Sub: Public Notice in compliance of Regulation 30 and 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sir,

This has reference to compliance of Regulation 47 read with Regulation 30 and Part A of Para A of Schedule III of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

We are sending herewith Notice published on 5th February 2021 and 16th February 2021 in respect of the following:

- 1. Public Notice given by the company pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, MCA Circulars and SEBI Circular in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by Companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by COVID 19" seeking approval of the shareholders through postal ballot and electronic voting. Due to difficulty in dispatch of Postal Ballot notice, Postal Ballot form / self-addressed envelope etc., by post or courier, on account of threat posed by COVID-19 pandemic situation, Postal Ballot Notice will be sent in electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company. Published on 05.02.2021 in Financial Express (English) all editions and Jansatta (Hindi Edition)
- 2. Public Notice in respect of dispatch of Postal Ballot Notice dated 16.02.2021 to the shareholders of the Company seeking their approval in respect of resolution mentioned thereon. Published on 16.02.2021 in Financial Express (English) all editions and Jansatta (Hindi Edition)

The said Newspaper Advertisements are also available at the website of the Company at https://www.consofinvest.com.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours truly,

For Consolidated Finvest & Holdings Limited

0 * CO

Anil Kaushal (Company Secretary)

Marina

Encl: as above

Regd. Off.: 19th K.M. Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr (U.P.)

REMSONS

Industries Limited

(CIN: L51900MH1971PLC015141)

4th Floor, Gladdiola, Hanuman Road

Vile Parle (East), Mumbai-400057

17

Quick Heal

Security Simplified

QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Opposite Neco Garden Society, Viman Nagar, Pune - 411014 Phone: +91 20 66813232 CIN: L72200MH1995PLC091408 Email: cs@quickheal.co.in

STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

| Sr. No. | | | Quarter ended | | Nine Mon | Year ended | |
|------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| | Particulars | December 31, 2020 (Unaudited) | September 30, 2020 (Unaudited) | December 31, 2019 (Unaudited) | December 31, 2020 (Unaudited) | December 31, 2019 (Unaudited) | March 31, 2020 (Audited) |
| 1 | Income | | | | | | 1 |
| | Revenue from operations | 698.75 | 844.13 | 657.07 | 2,277.50 | 2,218.84 | 2,861.38 |
| | Other income | 62.87 | 58.25 | 75.70 | 184.27 | 233.54 | 315.96 |
| | Total income | 761.62 | 902.38 | 732.77 | 2,461.77 | 1, 2020 31, 2019 (Unaudited) 2,277.50 2,218.84 184.27 233.54 2,461.77 2,452.38 6.67 7.97 42.86 50.25 26.85 13.13 832.34 768.38 144.87 160.84 491.93 541.04 | 3,177.34 |
| No. | Expenses | 4.00 | | | - Section | *27500 | |
| | Cost of raw materials consumed | 1.80 | 3.82 | - 19 | 6.67 | 7.97 | 8.16 |
| | Purchase of security software products | 6,62 | 29.64 | 17.50 | 42.86 | 50.25 | 95,94 |
| | Changes in inventories of security software products | 12.98 | (2.97) | (1.03) | 26.85 | 13.13 | (3.86) |
| | Employee benefits expense | 289.82 | 280.99 | 246.96 | 832.34 | 768.38 | 1,014.19 |
| | Depreciation and amortisation expense | 49.57 | 48.79 | 53.91 | 144.87 | 160.84 | 216.77 |
| | Other expenses | 222.90 | 141.79 | 161.39 | 491.93 | 541.04 | 833.03 |
| | Total expenses | 583.69 | 502.06 | 478.73 | 1,545.52 | 1,541.61 | 2,164.23 |
| 3 | Profit / (loss) before exceptional items and tax (1-2) | 177.93 | 400.32 | 254.04 | 916.25 | 910.77 | 1,013.11 |
| 4 | Exceptional items | 350 | 9 | | | | |
| 5 | Profit / (loss) before tax (3-4) | 177.93 | 400.32 | 254.04 | 916.25 | 910.77 | 1,013.11 |
| 6 | Tax expense | | | | | | 7.7 |
| | Current tax | | | | | | |
| | Pertaining to profit for the current period | 23.25 | 107.21 | 56.69 | 229.37 | 208.61 | 211.44 |
| | Deferred tax | 20.07 | 4.76 | 19.50 | 14.34 | 37.98 | 57.56 |
| | Total tax expense | 43.32 | 111.97 | 76.19 | 243.71 | 246.59 | 269.00 |
| 7 | Profit / (loss) for the period (5-6) | 134.61 | 288.35 | 177.85 | 672.54 | 664.18 | 744.11 |
| 8 | Other comprehensive income, net of tax Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods: | SATIONAN | 2000/65/2 | 551QA | 3/450-5-5-2-9 | -86.01 Deplito 6 | Nesson de |
| | Re-measurement of defined benefit plans | (4.17) | 0.30 | 3.92 | (2.87) | 8.48 | 9.73 |
| | | | | | | | |

| - | Audited | standalone | financial | information | |
|---|---------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | |

(0.37)

(4.54)

130.07

642.05

2.10

2.09

(2.43)

(2.13)

286.22

642.03

4.49

4.49

(₹ in million, except earning per share)

(2.88)

(5.75)

666.79

642.05

10.48

10.47

1.26

5.18

183.03

642.03

2.77

2.77

0.35

8.83

673.01

642.03

10.06

10.05

2.16

11.89

756.00

642.03

11.34

11.34

5,798.65

| | | | Quarter ended | Nine Mon | Year ended | | | |
|------------|-------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Sr. No. | Particulars | December Septembe 31, 2020 30, 2020 (Unaudited) (Unaudited | | December 31, 2019 (Unaudited) | December 31, 2020 (Unaudited) | December 31, 2019 (Unaudited) | March 31, 2020 (Audited) | |
| 1 | Revenue from operations | 711.23 | 828.60 | 651.35 | 2,274.23 | 2,199.73 | 2,834.04 | |
| 2 | Profit before tax | 170.21 | 395.78 | 255.57 | 910.37 | 922.07 | 1,004.40 | |
| 3 | Profit after tax | 127.22 | 284.01 | 179.63 | 667.56 | 676.15 | 736.39 | |

Notes to financial results:

- The above financial results for the guarter and period ended December 31, 2020 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Group and reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent Company at the meeting held on February 3, 2021.
- During the year ended March 31, 2019, Parent Company had received notice of demand dated March 13, 2019, in relation to service tax under the provisions of Finance Act, 1994 for ₹ 387.43 million (excluding interest and penalties) covering the period from April 1, 2016 to June 30, 2017 on supply of anti-virus software in Compact Disk. Company replied to the notice of demand to Commissioner of Goods and Service Tax, Pune.

Disk. Parent Company had filed an appeal with Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, New Delhi for the period March 1, 2011 to March 31, 2014 and with the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Mumbai for the period April 1, 2014 to March 31, 2016. The Hon'ble Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Principal Bench, New Delhi, vide its judgment (Order No. 50022/2020) dated January 09, 2020 (Service Tax Appeal No. 51175 of 2016), has set aside the Service Tax demand for ₹560.71 million along with interest and penalty which was earlier confirmed

by Directorate General of Central Excise Intelligence (DGCEI), New Delhi vide its Order of 2016 covering period from for the period March 1, 2011 to March 31, 2014. Based on this latest judgement of CESTAT, New Delhi, technical circular issued by Government authorities and an independent legal opinion obtained by the Parent Company in earlier years, the Parent Company is confident to get relief and set aside for balance period from April 01, 2014 to June 30, 2017. Accordingly, no provision/contingent liability had been recognized/disclosed in the financial statements.

The Commissioner of Service Tax, Delhi has preferred an appeal against the above said Order passed by the Hon'ble Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) amounting to ₹560.71 million and hearing for condonation of delay of appeal is scheduled with the Hon'ble Supreme Court on February 05, 2021.

- The Group is engaged in providing security software solutions. The Chief Operating Decision Maker (CODM) reviews the information pertaining to revenue of each of the target customer group (segments) viz. retail, enterprise & government and mobile. However, based on similarity of activities/products, risk and reward structure, organisation structure and Internal reporting systems, the Group has structured its operations into one operating segment viz. anti-virus and as such there is no separate reportable operating segment as defined by Ind AS 108 "Operating segments".
- Estimated uncertainty relating to COVID-19 outbreak
- The Management has made an assessment of the impact of COVID-19 on the Group's operations, financial performance and position as at and for the quarter ended December 31, 2020 and has concluded that the impact is primarily on the operational aspects of the business. In assessing the recoverability of receivables including receivables, investments, and other assets, the Group has considered internal and external information up to the date of approval of these financial results including status of existing and future customer orders, cash flow forecasts, commitments with suppliers, etc. The Group has performed sensitivity analysis on the assumptions used and based on current indicators of future economic conditions, the Group expects to gradually recover the carrying amount of these assets, the Group has also considered the impact of subsequent events in its assessment and concluded that there is no significant impact which is required to be recognised in the financial results. Accordingly, no further adjustments have been made to the financial results. Considering the dynamic nature of the issue, the impact of the global health pandemic may be different from that estimated as at the date of approval of these financial results and the Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions
- The Indian Parliament has approved the Code on Social Security 2020 which subsumes the Provident Fund and the Gratuity Act and rules thereunder. The Ministry of Labour and Employment has also released draft rules thereunder on November 13, 2020 and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Group will evaluate the rules, assess the impact if any, and account for the same once the rules are notified and becomes effective.
- 6 Previous period's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to make them comparable with the current period's classification / disclosure.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Pune Kailash Katkar Date: February 03, 2021 Managing Director & Chief Executive Officer

AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED

Regd. Office: W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi-110017 W: www.aayushfoods.com E-mail: aayushfoodherbs@gmail.com CIN: L01122DL1984PLC018307 Tel.: 011-41009092, 46095455

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 12th February, 2021 at the Registered Office of the Company at W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi- 110017 to consider, interalia, Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended 31st December, 2020 and other business, if any, with permission of the Board,

This intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) where the company's shares are listed and shall also be available on the website of the Company (www.aayushfoods.com). For Aayush Food and Herbs Limited

Place: New Delhi Preeti Kataria Date: 04.02.2021 Company Secretary

Morn Media Limited CIN: L22121UP1983PLC006177

Regd. Office: Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005 Tel: +91 512 2216161, E-mail: mornmedialimited@hotmail.com Website: www.mornmedia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of Morn Media Limited is scheduled to be held on Friday, February 12, 2021 inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2020. The information contained in this notice is also available on the Company's corporate website and on the website of the stock exchange http://www.mornmedia.com http://www.msei.in

For Morn Media Limited

Place: Kanpur Date: February 04, 2021

(Ravina Soni) Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A60251

MODULEX CONSTRUCTION TECHNOLOGIES LIMITED

(CIN: L45100PN1973PLC182679) Regd Office: A-82, MIDC Industrial Estate, Indapur, Pune- 413132 Website: www.modulex.in | Email ld: compliance@modulex.in | Tel: +91 02111 223061

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements)Regulations, 2015 the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday 12th February, 2021 through Video Conferencing inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial results for the guarter ended 31st December, 2020. Further, in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 read with Company's Code of Conduct, the "Trading Window" for dealing in the Equity shares of the Company shall remain closed upto 14th February, 2021. The said notice is also available on the website of the Company www.modulex.in and on the website of BSE at www.bseindia.com.

For MODULEX CONSTRUCTION TECHNOLOGIES LIMITED

Place: Mumbai Date: 04" February, 2021

Company Secretary and Compliance Officer

Bhoomi Mewada



Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS In terms of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings)

Act, 1970, any dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to "Unpaid Dividend A/c" shall be transferred to Investors Education and Protection Fund established by the Central Government. In compliance with the above provision, unpaid or unclaimed interim

dividend for the year 2013-14 would be transferred to Investors Education and Protection Fund (IEPF) during the first week of March, 2021. The details of the shareholders, who have not encashed dividend warrants, are placed on our website: www.ucobank.com

The eligible shareholders, who have not claimed interim dividend declared by the Bank for the year 2013-14, are hereby requested to lodge their claims immediately with our Registrar & Share Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Pvt. Ltd., Unit: UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 @ 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. The shareholders can lodge the claims sufficiently before 25th February, 2021 by e-mail at hosgr.calcutta@ucobank.co.in or einward.ris@kfintech.com

Place: Kolkata Date: 04-02-2021

(RAM KUMAR) General Manager

Honours Your Trust

Crompton

Crompton Greaves Consumer Electricals Limited CIN: L31900MH2015PLC262254

Registered & Corporate Office: Tower 3, 1" Floor, East Wing, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai 400070, India Tel.: +91-22-6167 8499 Fax: +91-22-6167 8383 E-mail: crompton.investorrelations@crompton.co.in Website: www.crompton.co.in

NOTICE FOR SHARES

This notice is hereby given that the following shares of Crompton Greaves Consumer Electricals Limited are being claimed by Ms. Smita Mitra in the capacity of legal heir:

| Name of the holder | Folio No. | F CO-C 1 F (DD-17-17) | Name of the Claimant |
|---|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Mrs. Anna Purna Ghosh jointly with Mr. Krishna Mohan Ghosh | CGC0128164 | 1,400 | Ms. Smita Mitra |
| Mr. Krishna Mohan Ghosh | 0004002 | 1,000 | Ms. Smita Mitra |
| Any person who has a valid claim on the Company and/or its Registrar & Sh | ne said shares s | should loo | dge such claim wit |
| the following addresses: | nare Transfer A | gent withi | n 15 days ner |

Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Tower 3, 1st Floor, East Wing, Equinox | Electricals Limited Mumbai 400070, Maharashtra, India. Phone No.: 022-61678499

M/s KFin Technologies Private Limited Unit: Crompton Greaves Consumer

Business Park, LBS Marg, Kurla (West), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032. Toll Free No.: 1800-3454-001 Email id: crompton.investorrelations@crompton.co.in Email: einward.ris@kfintech.com

Place: Mumbai Date: 5" February, 2021

MRO-TEK REALTY LIMITED

(formerly known as "MRO-TEK LIMITED") Regd Office: No.6, 'Maruthi Complex', New BEL Road, Chikkamaranahalli, Bengaluru-560 054 CIN No. L28112KA1984PLC005873 Phone: 080-42499000



STATEMENT OF UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2020

(Rs in Lakhs except for EPS)

| | | | Quarter Ended | | Nine Mont | Year Ended | |
|-----|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| SI. | Particulars | 31/Dec/2020 Un-Audited | 30/Sept/2020 Un-Audited | 31/Dec/2019 Un-Audited | 31/Dec/2020 Un-Audited | 31/Dec/2019 Un-Audited | 31/Mar/2020 Audited |
| 1 | Total income from operations | 1,077.31 | 642.63 | 997.21 | 2,257.98 | 3,507.07 | 4,137.09 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and Extraordinary Items | (189.03) | (194.24) | (304.04) | (616.72) | (137.30) | (486.78) |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before Tax, but after Exceptional and Extraordinary Items | (189.03) | (194.24) | (304.04) | (616.72) | (137.30) | (486.78) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after Tax, after Exceptional and Extraordinary Items | (181.27) | (210.79) | (313.45) | (628.55) | (158.08) | (521.26) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) | (182.46) | (210.67) | (315.45) | (629.94) | (159.37) | (523.47) |
| 6 | Equity Share Capital | 934.23 | 934.23 | 934.23 | 934.23 | 934.23 | 934.23 |
| 7 | Other Equity | (1,722.09) | (1,539.63) | (728.04) | (1,722.09) | (728.04) | (1,092.15) |
| 8 | Earnings Per Share (of ₹ 5/- each) for Continuing and Discontinued Operations | 565555 VAL | | 134- 34- | 2002 | | |
| | 1. Basic : ₹ | (0.97) | (1.13) | (1.68) | (3.36) | (0.85) | (2.79) |
| | 2. Diluted: ₹ | (0.97) | (1.13) | (1.68) | (3.36) | (0.85) | (2.79) |

NOTES:-

Place: Bengaluru

- 1 The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 03rd February, 2021.
- 2 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and the website of the company, "www.mro-tek.com".
- 3 Figures for the earlier period have been re-grouped wherever necessary.

By Order of the Board, for MRO-TEK REALTY LIMITED Aniruddha Mehta

Chairman and Managing Director



Regd. Office: 4/5, In Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 CIN No.: L30007DL2003PLC214485

Ph: 40081800, Email: info@maanaluminium.in Website: www.maanaluminium.com NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Stock Exchange(s), Notice is hereby given that the Meeting of Board of Directors is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021 at 4/5, I4 Floor, Asaf Ali Road, New Delhi- 110002 at 12:30 P.M., inter-alia to consider, approve and take on record, the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2020 and other agenda items, if any.

This is also to inform you that as per Code of Conduct of the Company for Prevention of Insider Trading in the securities of the Company. the Trading Window shall remain closed for all the Directors/ Officers/ Designated Employees / specified persons of the company from 01" January, 2021 to till 48 hours after the announcement of Q3 financial results. The said information is also available on the website

of the Company i.e. www.maanaluminium.com as well as website of the Stock Exchanges i.e. BSE imited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com) For Maan Aluminium Limited

Place: New Delhi Date: 04.02.2021

Anu Aggarwal Company Secretary

Company Secretary& Compliance Officer Place: Mumbai Date: 4th February, 2021

BEML LIMITED Schedule 'A' Company Under Ministry of Defence, GOI CIN: L35202KA1964GOI001530

Regd. Office: "BEML Soudha", No.23/1, 4th Main Road, S. R. Nagar, Bengaluru-560027, Tel. & Fax: (080) 22963142 E-mail: cs@beml.co.in Web-site: bemlindia.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 10.02.2021 inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results for the third quarter and nine months ended 31.12.2020 and declaration of interim dividend, if any, for the FY 2020-21.

The outcome of the above meeting will be made available on the web-site of the Company at www.bemlindia.in as also on the web-site of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com For BEML LIMITED

Bengaluru. 04.02.2021 S. V. Ravisekhar Rao Company Secretary & Compliance Officer



by way of a preferential allotment.

KINETIC ENGINEERING LIMITED Regd. Office: D-1 Block, Plot No. 18 / 2, MIDC, Chinchwad. Pune 411019 | Tel.: +91-20-66142049/78 | Fax: +91-20-66142088/89 Website: www.kineticindia.com | CIN: L35912MH1970PLC014819

NOTICE pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February, 2021 inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months' ended

NOTICE

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.kineticindia.com and on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. For Kinetic Engineering Limited

31st December, 2020 and a proposal for issue and allotment of equity shares

Date - 4th February, 2021

Nikhil Deshpande Company Secretary



Place - Pune

(A Government of India Enterprise) Regd. Office: 21, Netaji Subhas Road, Kolkata 700001 CIN:L65999WB2001GOI093759

Phone No.-033-22225227 Email: lahoti.a@balmerlawrie.com, Website: www.blinv.com

NOTICE Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2021, inter-alia, to consider and approve the unaudited Financial Results (both standalone and consolidated) of the Company, for the third quarter of the Financial Year 2020-21 ended on 31" December, 2020.

This information shall also be available on the websites of BSE Ltd. (www.bseindia.com) and of the Calcutta Stock Exchange Limited (www.cse-india.com) where the shares of the Company are listed and shall also be available on the website of the company (www.blinv.com).

For Balmer Lawrie Investments Ltd. Abhishek Lahoti

Date: 3" February, 2021

Place: Kolkata

Company Secretary A25141 CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED

[CIN No. L33200UP1993PLC015474] Registered Office: 198 KM., Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi,

Distt. Bulandshahr. Uttar Pradesh - 203408 Head Office: Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 Tel: 011-40322100, Email: cs_cfhl@jindalgroup.com , Website: www.consofinvest.com

Pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is Scheduled to be held on Friday, 12" February, 2021 at Head Office of the Company inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31.12.2020 and approval of postal ballot notice for reclassification of Mrs. Aakriti Ankit Aggarwal and M/s Aakriti Trust from Promoter and Promoter Group. category to "Public category. Notice is hereby given pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with rules

made thereunder (including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, and as amended from time to time), read with the General Circular No. 14/ 2020 dated April 8, 2020 and the General Circular No. 17/2020 dated April 2020, General Circular No.39/2020 dated 31st December 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars") and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January, 15, 2021 in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by Companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by COVID - 19" and pursuant to other applicable laws and regulations, that the Company will be seeking approval of the shareholders of Consolidated Finvest & Holdings Limited ("the Company") through postal ballot ("Postal Ballot") and electronic voting ("e-voting"). Due to difficulty in dispatch of Postal Ballot notice, Postal Ballot form / self-addressed envelope etc., by post or courier, on account of threat posed by COVID-19 pandemic situation, the Company will send in due course of time the Postal Ballot Notice in electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant. The Company will provide e-voting facility through Link Intime India Private Limited (LIIPL), The Members can vote through remote e-voting in respect of resolution(s) proposed in the Postal Ballot Notice. Detailed instructions for voting will be provided in the Notice.

The e-copy of the Postal Ballot notice will also be available on the website of the Company at www.consofinvest.com and also be available on the website of the National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com.

In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant please follow the process of registering the same as mentioned below (PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 11/02/2021):

Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Linkintime Holding India Private Limited at delhi@linkintime.co.in giving details of Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. Linkintime India Private Limited, Noble Heights, 1" Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri. New Delhi-110058 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.)

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email Holding address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment if

address along with the Postal Ballot Notice. However members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of

the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular. This notice is also available on the website of the Company, i.e., www.consofinvest.com &

For Consolidated Finvest & Holdings Limited

Place: New Delhi Date: 3" February, 2021

financialexp.epap.in

Total other comprehensive income Total comprehensive income (after tax) (7+8) 10 Paid-up equity share capital (face value of ₹10 each).

Other equity (as per balance sheet of previous accounting year)

Exchange differences on translation of foreign operations

Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss

a) Basic

b) Diluted

in subsequent periods:

12 Earnings per share of ₹10 each: (not annualised for the quarter)

During the earlier years, Parent Company received similar notice of demands in relation to service tax under the provisions of Finance Act, 1994 for ₹ 1,223.07 million (excluding penalty of ₹626.97 million and pre-deposit, if any) covering the period from March 1, 2011 to March 31, 2016 on supply of anti-virus software in Compact

Date: 03rd February, 2021

Website: www.mro-tek.com

declared by company. Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository Participatory, the login credentials for remote e-voting will be sent on the registered e-mail

at the website of NSE at www.nseindia.com.

Anil Kaushal (Company Secretary)

New Delhi

Tel No: 022 26262100; 022 26122368

Email id: corporate@remsons.com, website: www.remsons.com NOTICE Notice is hereby given in terms of

Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday.

10" February, 2021 inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31" December, 2020. The information is also available on the website of BSE Ltd. (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) where the shares of the Company are listed and is

also available on the website of the Company viz., www.remsons.com. For Remsons Industries Limited ROHIT DARJI

D-1. Umesh Rana Sio. Sh. Sultan Singh H. No. 6570, Sector-C Pkt-6 &7 Vasant Kunj, New Delhi -11007 Whereas the above named applicant, has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not to serve you in ordinary way make appearance in this Tribunal on 09:02:2021 at 10:30A.M. Take notice that in case of your failure to appear on the above

applications' software; (ii) Meeting ID and Password for the next date of hearing gua cases to be taken by RegistranRecover Officer-liand Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date of DRT Official Portal i.e. drt.gov.in under the Public Notice Head. (ii) In any exigency gua that, the Advocate-Litigants can contact the concerned official at Ph. No. Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 21st

for details logon to: https://highcourtchd.gov.in **ारि** फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड CIN: L15133UR1990PLC023970 **पंजी. कार्या.:** लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया. यी. ओ

फोन : 0135-2499234, फेक्स : 0135-2499235 वेषसाइट : www.flexfoodsitd.com इमेल : secretarial@uflexitd.com

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.flexfoodsltd.com स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

राजेश धीर कम्पनी सचिव ए-64, ऑर्डनैन्स अपार्टमेन्ट्स

KALPTARU HOUSING PVT. LTD. & ORS. .. Defendents . Kalpitaru Housing Pvt. Ltd. E-69, Kalkaji, New Delhi Also at Kalplan, Housing Pvt. Ltd. 8-4, 6th Floor, Sector-132 Saha Infratech Pvt, Ltd. Plot No. B.4, 6th Floor, Sector-132. Aniel Kumar Saha Sin, Amulya Kumar Saha G-22, Sector-Gaulam Nagar, Noida -201301 r, Gautam Nagar, Norda - 2013.01 figerast the above named applicant. has Instituted a case gainst you and whereas if has been shown to the satisfaction if the Tribunal that it is not to serie you in ordinary way. herefore, this notice is given by advertisement directing you to ake appearance in this Tribunal on 10.02.2021 at 10.304. M.

ETT LIMITED CIN: L22122DL1993PLC123728

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 24th by of Dec., 2020.

By Order of this Tribunal
Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

New Delhi - 110 048 T & F: +91 11 4656 7575 Email: secretarial@ettgroup.in Web: www.ettgroup.in

Company for the quarter ended December 31, 2020.

Date: 04.02.2021 Place: New Delhi

Puniti Sharma

MAAN पंजी. कार्यालय: 4/5, 1ला तल, आसफ अली रोड, नर्ड दिल्ली-110002 CIN No.: L30007DL2003PLC214485 फोन: 40081800. ईमेलः info@maanaluminium.in वेबसाईटः www.maanaluminium.com

स्टॉक एक्सचैंज(जों) के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एक बैठक शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को 4/5, 1ला अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिस., 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिए जाएंगे तथा एजेण्डा के अन्य मदों पर विचार की जाएगी।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी की प्रतिभृतियों में इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार सभी निदेशकों/ अधिकारियों/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग विण्डो 01 जनवरी, 2021 से क्यू के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.maanaluminium.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 4.2.2021 कम्पनी सचिव

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana NEXT DATE: 08-03-2021 CNR NO: PBLD03-848004-2018

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.govt.in/ludhlana Kotak Mahindra Bank Munish Kumar

above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.

केआरए लिजिंग लिमिटेड

CIN: L65993DL1990PLC039637

E: kraleasing1990@gmail.com;

W: www.kraleasing.com

पंजीकृत कार्यालय: सी-20, एसएमए

को-आपरेटिव इन्डस्ट्रियल इस्टेट, जी टी

करनाल रोड, दिल्ली-110033

कारपोरेट कार्यालयः प्लॉट न० 3. सेक्टर-11

आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा -122050

दुरभाष: 0124-4746817

सेबी के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन

47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें)

विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा

सूचना प्रदान की जाती है कि 31 दिसम्बर

2020 को समाप्त कम्पनी के तिमाही एवं

नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर

अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ

विचार एवं स्वीकृत एवं रिकार्ड में ग्रहण करने

एवं अन्य व्यवसाय कार्यसूची हेतु कम्पनी के

निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी,

2021 को सायं 03:00 बजे कम्पनी के कारपोरेट

कार्यालय प्लॉट न० 03, सेक्टर-11, आईएमटी

|मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा-122050 में

"कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की

सुनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने

प्रश्न/कार्यसूची, यदि कोई हों, वर्ड फाइल मे

ंअपने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी

के साथ kraleasing1990@gmail.com पर

मंडल की बैठक की सचना कम्पनी की

बोर्ड के आदेशानसार

सदस्यता संख्या:61965

रिधिमा गुप्ता

कृते केआरए लिजिंग लिमिटेड

कम्पनी सचिव कम अनुपालन अधिकारी

उपलब्ध है।

स्थान: गुरूग्राम

तिथि: 04.02.2020

?trs=district_notice&district=ludhiana

Vihar Delhi- 110053

Notice To: munish Kumar S/o Not Known K - 136 Gali No 3, K- block , Gautam whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused// accused persons can't be served in the ordinary way of service. hence proclamation under 82 of code of procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 68-03-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in case of default on your part to appear as directed

"कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की सुनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने प्रश्न/कार्यसूची, यदि कोई हों, वर्ड फाइल में अपने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी के साथ शेयर धारित संख्या के साधा apoorvaleasing@gmail.com पर आमंत्रित

मंडल की बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.apoorvaleasingfinance.com

बोर्ड के आदेशानुसार कृते अपूरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट कम्पनी लिमिटेड

पंकज मिश्रा कम्पनी सचिव एवं स्थान: नौयडा

(पूर्व का आशुतोष पेपर मिल्स लिमिटेड) (सीआईएन : L65100DL1988PLC033812 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 269, भूतल, त्रिदेव अपार्टमेंट, स्वयं सेवा सीजीएचएस लिमिटेड, झिलमिल कॉलोनी, दिल्ली-110095 ई-मेल : ashutoshpapermills@gmail.com वेबसाइट : www.tridevinfraestates.in

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही हेत् अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों एवं अन्य प्रकार्य, यदि कोई हो, पर विचार तथा अनुमोदन करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को

एवं ग्राहक आईडी के साथ शेयर धारित संख्या विवसाइट www.kraleasing.com एवं स्टॉक एक्सचेन्ज की वेवसाइट www.msei.in पर भी सकती है।

कते त्रिदेव इंफ्राएस्टेटस

तिथि: 04.02.2021 अतुल कुमार अग्रवाल स्थान : दिल्ली



Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12, 2021, inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

and Report Trading by Insiders", Trading Window for trading in the shares of the Company has already been closed w.e.f. December 31, 2020 and shall remain closed till February 14, 2021.

This Notice is available on BSE Limited website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited website (www.nseindia.com) and also on the Company's website (www.pcjeweller.com) under the Investors section.

For PC Jeweller Limited (Vijay Panwar)

Date: 04/02/2021

Company Secretary

ओएनजीसी 📆 ONGC

एचपीएचटी एसेट- संयक्त उपक्रम (जेवी) जिसमें ओएनजीसी तथा जीएसपीसी शामिल है जिसका पी. मल्लावरम में ऑनशॉर गैस टर्मिनल है, के द्वारा प्रख्यात् सेवा प्रदाताओं से 18 माह की अवधि के लिये पीएनजीआरबी विनियमनों के अनुसार वांछित हाइड्रोकार्बन डेब प्वाइन्ट (एचसीडीपी) प्राप्त करने के लिये सैल्स गैस के प्रॉसेसिंग के लिये प्रचालन एवं रखरखाव के साथ चिलर यनिट के हायरिंग के लिये 'पुर्व–योग्य होने'' के लिये पार्टियों को आमंत्रित किया जाता है।

कार्य के वृहत्त क्षेत्र, प्रत्याशित डेलिवरेवल्स, दस्तावेजों को जमा करने की तिथि एवं समय तथा पीक्युसी डाउनलोड करने के लियेः ओएनजीसी (link:https://tenders.ongc.co.in) देखें। अनुबंध के निष्पादन का स्थानः ओजीटी, पी. मल्लावरम गाँव, तल्लेरेवु मंडल, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश, भारत-533463

जीएम (पी)-ओजीटी, ओएनजीसी, एचपीएचटी एसेट

हर एक काम देश के नाम

मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

UNO MINDA

CIN: L74899DL1992PLCO50333 पंजी. कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052, Website: www.unominda.com

Tel.: +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427/28 Fax: +91 124 2290676/95

उपरोक्त बैठक में घोषित अंतरिम लाभांश प्राप्त करने के लिये अधिकृत पात्र शेयरधारकों को सुनिश्चित करने के लिये मंगलवार, 16 फरवरी, 2021 को '' अभिलिखित तिथि'' के रूप में निर्धारित

तरुण कुमार श्रीवास्तव स्थानः दिल्ली तिथि: 4 फरवरी, 2021 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

शाखाः 5 ई/3, बी.पी. नीलम रेलवे रोड एनआईटी, फरीदाबाद- 121001

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत युनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई-कॉर्पोरेशन बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक/गारन्टरों को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 फरवरी, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ नीचे वर्णित राशि के अतिरिक्त नीचे खाताओं के अंतर्गत वर्णित आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे. लागत, चार्जेज आदि के लिये यनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई-कॉर्पोरेशन बैंक) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकष्ट

की जाती है। ऋणधारक /गारन्टरों का नाम अचल सम्पत्ति का विवरण बकाया राशि मांग सूचना ऋणधारकः मै. केडी खेरा एंड क. प्रा.लि. 3बी–16बी.पी. एनआईटी फरीदाबाद–121001 एनआईटी फरीदाबाद-121001 रु. 4366211.63 (रुपये 17.7.2020 गारन्टर्सः 1. श्री एल एन खेरा, 2. श्री सी.पी. खेरा स्व. श्री हरीश खेरा के कानूनी उत्तराधिकारीः में स्थित बंगला प्लॉट नं. 3-तैंतालिस लाख छियासठ हजार 3. श्रीमती नीलम खेरा, 4. रुचिका खेरा, स्व. जगदीश खेरा के कानूनी उत्तराधिकारी: 5. श्री बी/16 के भाग की सम्पत्ति माप दो सौ ग्यारह एवं पैसे तिडेसठ मुकेश खेरा, 6. श्रीमती सरोज खेरा, 7. श्री दीपक खेरा, 8. श्रीमती सोनिया ग्रोवर 9. सुश्री 377 वर्ग यार्ड्स मात्र) तथा उस पर ब्याज सोनाली जोशी, सभी का सामूहिक पताः ८ए, 148, एनआईटी, फरीदाबाद-121001 तिथि: 5.2.2021 स्थान: फरीदाबाद

महान फूड्स लिमिटेड

CIN: L15419HP1987PLC007356 पंजी. कार्यालयः एम-19, 1ला तल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048

टेली.: 011-43107200, फैक्स: 011-43107250 ईमेलः info@mahaanfoods.com वेबसाईटः www.mahaanfoods.com

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9 के अनुसार इन्सायडर ट्रेडिंग रोकने के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग विण्डो जो पहले से ही बंद है, उपरोक्त परिणामों की घोषणा की तिथि के बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेंगे। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.mahaanfoods.com पर भी

बोर्ड के आदेश से महान फूड्स लिमिटेड के लिये

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 4.2.2021

आयुषी विजय कम्पनी सचिव-सह-अनुपालन अधिकारी

ORACLE CREDIT LIMITED Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016

CIN: L65910DL1991PLC043281 E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011- 26167775 NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, February 11, 2021 at the Registered Office of the Company at P-7 Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended December 31, 2020. This information may be accessed on the Company's website at

www.oraclecredit.co.in and on the Stock Exchange's website at www.bseindia.com For Oracle Credit Limited

Place: New Delhi Date: 04.02.2021

Vineeta Gautam (Company Secretary & Compliance Officer)

AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED

Regd. Office: W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi-110017 W: www.aayushfoods.com E-mail: aayushfoodherbs@gmail.com CIN: L01122DL1984PLC018307 Tel.: 011-41009092, 46095455

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 12th February, 2021 at the Registered Office of the Company at W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi- 110017 to consider, interalia Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended 31st December, 2020 and other business, if any, with permission of the Board.

This intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) where the company's shares are listed and shall also be available on the website of the Company (www.aayushfoods.com). For Aayush Food and Herbs Limited

Place: New Delhi Date: 04.02.2021

हस्ता/-

आवेदक

आलोक कुमार

कम्पनी सचिव

एसीएस ः 19819

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED

Preeti Kataria

Company Secretary

Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 CIN: L65993DL1990PLC039397. Web; www.bervin.com. Email: secretary@bervin.com Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the

Quarter Ended 31st December, 2020 (Amount, in Lacs Quarter ended Year ended **Particulars** 31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020 Unaudited Unaudited Audited 62.41 177.14 Total Income from Operations 25.72 Net Profit/(Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items) 8.59 83.41 Net Profit/(Loss) for the period before tax 8.59 83.41 (after Exceptional and/or Extraordinary items 59.90 Net Profit/(Loss) for the period after tax 8.59 (after Exceptional and/or Extraordinary items 59.90 66.62 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive 8.59 59.90 66.62 Income (after tax)) Equity Share Capital 589.81 589.81 589.81 Reserves (excluding Revaluation Reserve 997.85 as shown in the Audited Balance Sheet of 997.85 1,282.25 the previous year) 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2020 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations) 0.15 Basic 1.02 1.41 0.15 1.02 (2) Diluted 1.41

No Leasing Business has been undertaken during the guarter.

2) The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record and approved by Board of Directors at their meeting held on February 04, 2021. Figures for the quarter ended 31st December, 2019 and year ended 31st March, 2020 have been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the

current quarter ended 31st December, 2020. As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the Quarter Ended 31 December, 2020 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi

Dated: 04th February, 2021

S. K. Murgai (Director) DIN: 00040348

शाकुम्भरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड CIN:L21012UP1986PLC007671

पंजी. कार्यालयः 4.5 कि.मी., भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 वेबसाईट:https://shakumbhripulp.com

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 वे

अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी 2021 को 1.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलाव 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनमोदन क उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। इस उद्देश्य से भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुसार इन्सायड

ट्रेडिंग की रोक थाम के लिये आचार संहिता के अंतर्गत शामिल निदेशक/अधिकारी/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/प्रवर्तकों व लिये ट्रेडिंग विण्डो पहले से ही बंद है तथा उपरोक्त बोर्ड की बैठक की पूर्णता के बाद 48 घंटे तक बंद रहेंगे। इस सचना का विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाईट www.shakumbhripalp.com तथा स्टॉक एक्सचैंज क वेबसाईट www.msei.in पर भी उपलब्ध होंगे। शाकुम्भरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के लिं

कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिका

स्थानः मुजफ्फरनगर तिथि: 03.02.2021

पैरामाउन्ट कम्युनिकेशन्स लि CIN: L74899DL1994PLC061295 पंजी. कार्यालयः पैरामाउन्ट हाउस, सी-125, नारायण

औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110028 दूरभाष : +91-11-45618800-900, फैक्स : +91-11-25893719/20 ई-मेल : pcl@paramountcables.com, वेबसाइट : www.paramountcables.com

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक

फेज-1, नई दिल्ली-110028 में बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021 को 4.00 अप. मे आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। विडियो-कान्फ्रेंसिंग सविधा द्वारा इलेक्टानिक रूप से बोर्ड के सदस्यों की भागीदारी की भी व्यवस्था की गई है।

मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय सी-125, नारायणा, औद्योगिक क्षेत्र,

यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट अर्थात् www.paramountcables.com तथा साथ स्टॉक एक्सचेंज जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की

वेबसाईट (www.nseindia.com) पर उपलब्ध सूचना में भी शामिल है। पैरामाउन्ट कम्युनिकेशन्स लि. के लिए

स्थानः नई दिल्ली (राशि गोयल तिथि: 05.02.2021 अनुपालन अधिकारी एवं कम्पनी सचिव

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड सीआईएन : L33200UP1993PLC015474 पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर-203408 मुख्य कार्यालय : प्लॉट नं. 12, सेक्टर-बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070

दूरभाष : 011-40322100, ई-मेल : cs_cfhl@jindalgroup.com; वेबसाइट : www.consofinvest.com सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार एतद्दार सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 कं कम्पनी के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31.12.2020 के समाप्त तिमाही तथा नौ माही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन तथा ''प्रवर्तक

एवं प्रवर्त्तक समृह'' श्रेणी से ''सार्वजनिक'' श्रेणी में श्रीमती आकृति अंकित अगरवाल तथा मै. आकृति

ट्रस्ट के पुनर्वर्गीकरण के लिये पोस्टल बैलॅट सूचना के अनुमोदन पर विचार किये जाऐंगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय. भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम. 2013 तथा कोविड-19 द्वार उत्पन्न चनौती के कारण उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (''एमसीए सर्क्यलर्स'') तथा लाग होने वाले अन्य काननों एंव विनियमनों के अनपालन में कम्पनी द्वारा साधारण तथा विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर ''स्पृष्टीकरण'' के संदर्भ में साधारण सर्क्यलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल. 2020 एव साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 साधारण सर्क्युलर नं. 39/2020 तिथि 3 दिसम्बर, 2020 तथा सेबी सर्क्यलर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2021/11 तिथि 15 जनवरी. 2021 के साथ पठित उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (इस समय में लागू उसके किर्स सांविधिक संशोधनों, सधारों अथवा पनरीक्षणों सहित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनपालन में कम्पनी पोस्टल बैलॅट (''पोस्टल बैलॅट'') तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (''ई-वोटिंग'') द्वारा कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के शेयरधारकों र्क स्वीकृति प्राप्त कर रही है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौती के कारण डाक अथवा कृरियर र पोस्टल बैलॅट सचना, पोस्टल बैलॅट प्रपत्र/स्व-पता लिखित लिफाफे आदि के प्रेषण में कठिनाई वे कारण कम्पनी नियत समय पर इलेक्टॉनिक पद्धत्ति में यह पोस्टल बैलॅट सचना केवल उन सदस्यों कं हीं प्रेषित करेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट के पास पंजीकृत है। यह कम्पर्न

कराएगी। सदस्यगण पोस्टल बैलॅट सुचना में प्रस्तावित प्रस्तावों के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग द्वार मतदान कर सकते हैं। वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश सुचना में उपलब्ध होगी। कम्पनी के पोस्टल बैलॅट सुचना की ई-कॉपी कम्पनी की वेबसाईट www.consofinvest.com तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंड ऑफ इडिंया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी।

यदि आपका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकत नहीं है तो कपया नीचे वर्णित

लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध

रूप में उसके पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें (कृपया 11.2.2021 से पूर्व उसे अपडेट कराएं भौतिक धारिता फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट एंव बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधा कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराते हुए ईमेल पते वे पंजीकरण के लिये delhi@linkintime.co.in पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथ अंतरण एजेन्ट्स, लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें।) कृपया, यदि पहले से वह पंजीकृत नहीं है, तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए हमा आरटीए (अर्थात् लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि. नोबल हाइट्स, 1ला तल, प्लॉट नं

एनएच 2, एलएससी सी ब्लॉक, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपरी, नई दिल्ली-

110058 के पास मुल निरस्त चालान के साथ अपने बैंक का विवरण भेजें।

डीमैट धारिता किपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएं। कृपया कम्पनी द्वारा यदि, घोषित होता है, अपनी खाता में लाभांश भुगतान के लिये अपने डीपी के पास अपने बैंक के विवरणों को भी अद्यतन कराएं।

सदस्यगण ध्यान रखें कि यदि आपका ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट के पास पंजीकत है तो रिमोट ई–वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेन्शियल्स पोस्टल बैलॅट सचना के साथ पंजीकृत ई–मेल परे पर भेजा जायेगा। लेकिन, जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे उपरोक्त रूप में ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें।

उपरोक्त सचना कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी तथा लाभ के लिए तथा एमसीए सक्यलर्स तथ सेबी सर्क्यूलर के अनुपालन में जारी की जा रही है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.consofinvest.com एवं स्टॉक एक्सचैंज की

वेबसाईट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड के लिये

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 3 फरवरी, 2021

अनिल कौशत (कम्पनी सचिव



इन्फ्राटक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी प्लांजा, टावर II, 4था तल, पुष्प विहार, सेक्टर-5, नई दिल्ली-110017 CIN: L45201DL1999PLC195937, ईमेल: complianceofficer@pncinfratech.com, वेबसाईटः www.pncinfratech.com

स्टैण्डएलॉन

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के वित्तीय परिणामों का सार

(ईपीएस को छोड़कर रु. लाखी में)

समेकित

| _ | क्रम | विवरण | समाप्त तिमाही | समाप्त तिमाही | समाप्त नौ माही | समाप्त तिमाही | समाप्त तिमाही | समाप्त नौ माही |
|---|------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | सं. | | (31.12.2020) अनंकेक्षित | (31.12.2019) अनंकेक्षित | (31.12.2020) अनंकेक्षित | (31.12.2020) अनंकेक्षित | (31.12.2019) अनंकेक्षित | (31.12.2020) अनंकेक्षित |
| Г | 1. | प्रचालनों से कुल आय | 134668.08 | 123235.53 | 333931.77 | 161692.69 | 140966.27 | 401106.69 |
| Г | 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पूर्व) | 15936.99 | 11278.85 | 35383.75 | 23686.87 | 9825.08 | 48677.14 |
| Г | - 1 | कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) | 15936.99 | 11278.85 | 35383.75 | 23686.87 | 9825.08 | 48677.14 |
| | - 1 | कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद) | 10317.25 | 7713.94 | 23256.09 | 17614.34 | 6690.43 | 34654.61 |
| L | | अविध के लिये कुल व्यापक आय (अविध के लिये लाभ/(हानि) (कर से बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद) से शामिल | 10367.87 | 7690.25 | 23407.96 | 17678.78 | 6666.62 | 44848.26 |
| | | इक्विटी शेयर पूंजी | 5130.78 | 5130.78 | 5130.78 | 5130.78 | 5130.78 | 5130.78 |
| | 7. | आरक्षित (पूर्व वर्ष के अनंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) | - | - | | - | _ | _ |
| Г | 8. | आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) | | | | | Tr. | îr |
| l | | 1. मूल 2. तरल | 4.02 | 3.01 | 9.07 | 6.87 | 2.61 | 13.51 |

टिप्पणी:

स्थानः आगरा

तिथि: 03 फरवरी, 2021

1) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही/ नौ माही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/नौ माही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.pncinfratech.com) पर उपलब्ध है।

2) उपरोक्त स्टैण्डएलॉन/ समेकित परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 03 फरवरी, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। पीएनसी इन्फ्राटेक लि. के लिए

> चक्रेश कुमार जैन प्रबंध निदेशक

(DIN: 00086768)

www.readwhere.com

up through Video Conferencing and for that purpose: ((All the Advocate) Litigants shall download the Cisco Webex

Assistant Registrar, DRT-III, New Del

रेशम मजरी, हरिद्वार शेख, देहराहन (तलराखण्ड)

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि फ्लैक्स फ़ुड़स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा।

पलैक्स फूड्स लिमिटेड के लिये

स्थान : नई दिल्ली ब्लॉक-एथ विकासपुरी, तिथि : 04.02.2021 नई दिल्ली-110018 BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNA. - III. DELHI 4TH. FLOOR, JEEWAN TARA BUILDING. PARLWMENT STREET. MEW DELHI-110001

Notice under Section 19/4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial institutions Act. 19/43 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993 in ICICT BANK LTD. AND Applicant Vs.

decided in your absence. The tolongoing Pandemic situation, all the matters will be taken to through Video Conferencing and for that purpose. IIIAI the divocate! Litigants shall download the Cisco Webex polication! software, (ii) Meeting ID and Password for the next ate of hearing qualicases to be taken by Registratificovery thoer-traind Recovery Officer-I shall be available one day prior the next date of DRT Official Portal is diffusion in under the units. Notice Head. (iii) In any exigency gus that, the divocates Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 3748469.

Regd. Office: 17, Hemkunt Colony,

NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021

at 4:00 P.M. at UB, Express Trade Towers 3, Plot no. 79, Sector 34, Guruqram, Haryana - 122 001 interalia, to consider and take on record the unaudited financial results of the

For ETT Limited

Compliance Officer

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की

तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में 12.30

मान एल्युमिनियम लिमिटेड के लिए अनु अग्रवाल

अंतरिम लाभांश के लिये अभिलिखित तिथि की सूचना

8

में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

तिथि 2.2.2021

अपुरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट कम्पनी लिमिटेड CIN No. L74899DL1983PLC016713 E: apoorvaleasing@gmail.com; W: www.apoorvaleasingfinance.com

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, 13/331, गीता कालोनी, दिल्ली-110031 दुरभाष: 011-022446748

सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एव रिकार्ड में ग्रहण करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को दोपहर 02:00 बजे कम्पनी के कारपोरेट

कार्यालय में आयोजित की जायेगी।

अनुपालन अधिकारी तिथि: 04 फरवरी, 2021

आयोजित की जायेगी। इस सूचना में निहित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.tridevinfraestates.in तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com से एक्सेस की जा

Corporate Identity Number: L36911DL2005PLC134929

In view of the same in terms of the Company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor

एचपीएचटी एसेट, काकीनाडा (एच.पी.) अभिरुचि की अभिव्यक्ति

E-mail: investor@mindagroup.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 4 फरवरी 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये रु. 2/- प्रति, पूर्णतः प्रदत्त की सम मुल्य की इक्विटी शेयरों पर रु. 0.35 प्रति शेयर अर्थात 17.50% के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।

किया है। मिण्डा इंडस्टीज लि. के बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1)

कब्जा की

प्राधिकृत अधिकारी: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

पेन इंडिया कांपरिशन लिमिटेड पंजी. कार्या: 711. 7वाँ तल. नई दिल्ली हाउस. 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 CIN: L72200DL1984PLC017510

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा लागु होने वाले अन्य विनियमनों के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार 10 फरवरी, 2021 को 2.30 बजे अप. में कम्पनी के पंजी. कार्या.: 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड. नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों तथा एजेण्डा में वर्णित किसी अन्य

अभिलेख में लिये जाएंगे। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.panindiacorp.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों जहां कम्पनी के सूचीबद्ध हैं, की www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए स्थानः नर्ड दिल्ली

व्यावसायिक मदों पर विचार, अनुमोदन कर उसे

विजय पाल शुक्ला तिथि: 4.2.2021 प्रबंध निदेशक जेआईटीएफ इन्फ्राल्जिस्टिक्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403

सीआईएन : L60231UP2008PLC069245

रतदद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व औ प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के वेनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरूवार, 11 फरवरी, 2021 को जिंदल आईटीएफ केंद्र, 28, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली—110015., में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिसरी तिमाही हेतु कंपनी के लिए अ-लेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए

सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियमावली 2015 के तहत अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता के अनुसरण में, व्यापार खिडकी, उपरोक्त वित्तीय परिणामों के प्रकटन से 48 घंटे तक के लिए बंद रहेगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jindalinfralogistics.com पर तथा स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स नामतः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है, जहां कम्पनी के शेयर

तिथि : 03-02-2021

मुचीबद्ध हैं।

वैकों तथा वित्तीय संख्याओं के बकाया ऋण की लिमिटेड वसली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

> सुनीता कुमार एवं अन्य डी–1 श्रीमती सुनीता कुमारी पत्नी श्री गणेश कुमार, निवासी: 351, गली नीम वाली रोशनआरा रोड, दिल्ली-110007, और: 56, प्रेमनगर, शक्ति नगर, दिल्ली-110007, और:

> यूए-64ए, जवाहर नगर कमला नगर,

डी-2 श्री सुमित राठौर पुत्र सुरेश कुमार,

ओ.ए सं. 562 / 2019 के मामले में

पंजाब नैशनल बँक

दिल्ली-110007।

होने का निर्देश दिया जाता है।

के लिए लिया जाएगा:-

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।। दिल्ली

चतुर्थं तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

निवासीः २३४, ई-ब्लॉक, कृष्णा विहार, सुल्तान पुरी, एफ ब्लॉक, दिल्ली-110086 वबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चका है कि आपको साधारण रूप से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस नोटिस के माध्यम से आपको दिनांक 10-03-2021 को पूर्वाह 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित

न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिधति में किया चल रही महामारी की रिधति के कारण, सभी मामलों

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस

सभी अधिवक्ता/पात्रगण सिस्को देवेक्स (ii) 'रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर-।/और रिकवरी ऑफिसर-।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए

"drt.gov.in" (iii) किसी भी जानकारी हेतु, एंडवोकेट्स/ लिटिगेंटस संबंधित अधिकारी से फोन 23748469.

तहत 11 जनवरी, 2021 को दिया गया।

पर संपर्क कर सकते हैं।

को वीडियो कॉन्हेंसिंग के माध्यम से और उस उदेश्य

आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्धात

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के

हस्ता/- सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।।, नई दिल्ली

SHIVA CEMENT LIMITED CIN: L26942OR1985PLC001557

Regd Office: YY 5, Civil Township 7/8 Area Rourkela, Odisha- 769004 Email - investors@shivacement.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION

FINANCIAL EXPRESS

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Company

will be held on Wednesday, the 10th day of March, 2021 at 11.30 a.m., through Video Conferencing (VC)/other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the business as set out in the EGM Notice. The EGM is being convened though VC/OAVM in compliance with the applicable

provisions of the Companies Act. 2013 read with MCA General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, No.17/2020 dated 13th April, 2020, No.22/2020 dated 15.06.2020, No.33/2020 dated 28.09.2020 and No. 39/2020 dated 31st December, 2020, respectively. Physical attendance of the Members is not required at the EGM venue. The proceedings of the EGM conducted shall be deemed to be made at this venue. Members desirous of attending the EGM through VC/OAVM may attend the EGM by following the procedure prescribed in the EGM Notice.

In terms of aforesaid Circulars, Notice calling EGM has been sent through electronic mode only to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company Registrar & Share Transfer Agent (R & STA) /Depository Participant(s). Hence, no physical copy of the EGM Notice has been dispatched.

The Notice calling EGM is available on the website of the Company at www.shiavecement.com, of National Stock Exchange of India Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com, being the agency appointed for providing remote e-voting facility, of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Further, updation, if any, in the EGM Notice will be provided on all the websites mentioned

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), the Company has provided its Members facility to cast their vote by electronic voting system from a place other than the Venue of the meeting (remote e-voting) on the resolution placed before the shareholders at the EGM. The remote e-voting period begins on March 7th, 2021 at 9.00 am, (IST) and ends on March 9th, 2021 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the above mentioned date and time. Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the EGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote their again. Only those Members/shareholders who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-Voting system in the EGM. Kindly refer to the EGM Notice for detail instructions for remote e-voting and e-voting at EGM.

The cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Wednesday, March 3rd, 2021. A person whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting in the EGM.

Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company can cast their vote through remote e-voting or through e-voting system during the Meeting by registering their e-mail ID and applying to the Company for attending the EGM. Detailed instructions are provided in the EGM Notice and as per the Newspaper advertisement provided to the members of the Company.

Those shareholders whose e-mail IDs are not registered can register their e-mail ID with Company and RTA investors@shivacement.com and nichetechpl@nichetechpl.com respectively by providing their name registered as per the record of the Company, address, E-mail ID, PAN, DP ID/Client ID or Folio Number and Number of shares held by them.

Any person who becomes the Member of the Company after dispatch of Notice of EGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 3rd March, 2021 can send request to evoting@nsdt.co.in

All documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement are available on the website of the Company for inspection by the Members.

he Company has appointed Mr. Surya Narayan Tripathy, Practicing Chartered Accountant, (Membership No. 065470) as Scrutinizer to scrutinize the Remote e-Voting and voting through the electronic means at the EGM in a fair and transparent

In case of any query / grievance with respect to Remote E-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400 013 at telephone no. 022 - 24994360 / 022 - 24994545 or toll free no. 1800 - 222 - 990 or at E-mail ID : amity@nsdl.co.in pallavid@nsdl.co.in and evoting@nsdl.co.in

JINDAL POLY FILMS LIMITED

[CIN: L17111UP1974PLC003979]

Registered Office: 19" K.M., Hapur-Bulandshahr Road P.O. Gulaothi,

Distt. Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203408, Tel No. 05732- 228057

Corporate Office: Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex,

Vasant Kunj, New Delhi - 110 070, Phone: (011) 40322100, Fax: (011) 40322129

Email: cs_jpoly@jindalgroup.com, Website: www.jindalpoly.com NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members of Jindal Poly Films Ltd. are hereby informed that pursuant to Section 110 of the

Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") (including any amendment(s), thereof) Regulation 44 of

the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, as amended ("Listings Regulations"), General Circular No. 14/2020 dated

April 8, 2020 and the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 General Circular No. 33/2020 dated September 28,2020 and

General Circular No.39/2020 dated 31st December 2020 and SEBI Circular

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January, 15, 2021 ("General Circulars") issued by

Ministry of Corporate Affairs (The "MCA") for seeking approval of the members of Jindal Poly

Films Limited (the "Company") by way off an Ordinary resolutions for the following Special

Business set out hereunder through Postal Ballot by remote e-voting process ("Postal Ballot/E-

Reclassification of Mrs. Aakriti Ankit Agarwal and M/sAakriti Trust from "Promoter and

in terms of the General Circulars, the Company has emailed the Postal Ballot Notice along with

Explanatory Statement on Monday, February 15, 2021, to the Members of the Company as on

Friday, February12, 2021 ("Cut Off Date")who have registered their email id with Depositories/Company's RTA. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity

shares registered in the name of Members as on the Cut Off Date. A person who is 'not a Membe

In accordance with the terms of the General Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice along

with postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members for the Postal Ballot. The communication of the assent or dissent of the Members would take place

The Postal Ballot Notice can be downloaded from the website of the Company

https://www.jindalpoly.com/download-reports or from the website of KFin Technologies Private

Limited (KFintech), Registrar and Share Transfer Agent of the Company

https://evoting.kfintech.com. The Notice is also displayed on the website of National Stock

Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com), where

The Company has engaged the services of KFin Technologies Private Limited, Registrar and

Share Transfer Agent for providing e-voting facility to all its Members. The process for registration

a) Pursuant to General Circulars, for remote e voting for this Postal Ballot, Members who have

clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/postalstalballot/registration.aspx

It is clarified that for permanent registration of email address, Members are requested to register

their email addresses, in respect of electronic holdings with their concerned Depository

Participants and in respect of physical holdings, with the Company's Registrar and Share

Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B. Plot 31 &32, Gachibowii,

their email addresses validated with their Depository Participants / the Company's Registrar

and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited to enable servicing of notices/

If any member who has registered the email address and not received Postal Ballot notice,

User-ld and password for remote e-voting, such Member may write to einward ris@kfintech.com

To understand the process of e-voting, Members are requested to go through the notes to the Postal Ballot Notice or refer to the

Mr. Deepak Kukreja, Practicing Company Secretary (FCS 4140)

and CP No. (8265) Partner, DMK & Associates. In case he is unable to carry out the scrutiny, Mrs. Monika Kohli (FCS 5480),

Practicing Company Secretary (CP No.4936), Partner of the

same firm has been appointed to act as the Scrutinizer.

Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

Results shall be communicated to BSE Limited and NSE Limited

where the equity shares of the Company are listed. Results shall

also be displayed on the notice board at the Registered Office of

the Company for a period of 3 (Three) Days on the Company's

website www.universusphotoimagings.com and on the website

Suresh Babu D, Deputy Manager- Corporate Registry, Kfin

Technologies Private Limited, Karvy Selenium, Tower B, Plot No.

31 & 32, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500 032,

E-mail:einward.ris@kfintech.com, Phone: 040-67162222/1517

By orders of Board of Directors For Jindal Poly Films Limited

Sanjeev Kumar

ACS: 18087

Company Secretary

FAQs at https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx

Starts on Tuesday, February 16,2021 at 9.00am

On or before Friday, March 19, 2021 by 05.00 pm.

Link for Members to https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx

Ends on Wednesday , March 17, 2021 at 05.00 pm

https://evoting.kfintech.com/

Friday, February 12,2021

Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, India by following due procedure. Those Members who have already registered their email addresses are requested to keep

incase of any queries, Member may-write to einward.ris@kfintech.com

documents/Annual Reports electronically to their email address.

from the registered email address to receive the same.

Key details regarding the Postal Ballot/ E-voting:

Particulars

Link for remote

Scrutinizer Details

Cut-off date for

E-voting Period

eligibility for voting

temporarily update

email address

publishing results

of the e-voting

In case of any

grievances or

queries, contact

Last date for

e-voting

Members may also register their e-mail IDs by sending an e-mail citing subject line as "JINDALPOLY" Postal Ballot - Registration of e-mail IDs" to cs_ipoly@jindalgroup.com

not registered their email address and in consequence the e-voting notice could not be

serviced, may temporarily get their email address registered with the Company's RTA by

on the Cut Off Date should treat this notice for information purposes only.

Promoter Group" category to "Public" category.

through the remote e-voting system only.

the shares of the Company are listed.

Process of registration of email address:

of email addresses is as under:

By order of the Board of Directors Shiva Cement Limited Sneha Bindra Company Secretary

Place: Rourkela Date: 15th February, 2021



KERALA AYURVEDA LTD.

CIN: L24233KL1992PLC006592, Regd. Off: VII/415, Nedumbassery, Athani P O, Aluva- 683585. Ph: 0484-2476301(4 lines) Fax: 0484-2474376

Email: info@keralaayurveda.biz, Website: www.keralaayurveda.biz EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DEC. 2020 Rs in Lakhs

| | | | | STAND | ALONE | | | 2 | | CONSOL | LIDATED | | |
|----|---|--------------------------|----------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| SI | No. at a second | Quarter ended | | | Nine Months ended | | Year Ended | Quarter ended | | | Nine Months ended | | Year Ended |
| NO | Particulars | 31.12,2020 Un-audited | | 31.12.2019 Un-audited | PARTY AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR | 31.12.2019 Un-audited | 31.03.2020 Audited | 31.12.2020 Un-audited | 30.09.2020 Un-audited | 31.12.2019 Un-audited | 31.12.2020 Un-audited | 31.12.2019 Un-audited | 31.03.2020 Audited |
| 1 | Total Income from operations | 1,204.23 | 1,003.45 | 1,347.68 | 2,913.00 | 3,807.74 | 5,008.08 | 1,678.27 | 1,448.18 | 1,907.33 | 4,202.84 | 5,432.31 | 7,303.27 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | (90.73) | (82.37) | 57.39 | (301.55) | 184.20 | 121.57 | 45.95 | (82.86) | 149.01 | (191.15) | 460.76 | 453.75 |
| 3 | Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (90.73) | (82.37) | 57.39 | (301.55) | 184.20 | 121.57 | 45.96 | (169.32) | 149.01 | (191.15) | 460.76 | 453.75 |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items) | (68.72) | (61.71) | 57.39 | (223.14) | 184.20 | 87.69 | 87.31 | (148.66) | 149.01 | (88.70) | 460.76 | 405.33 |
| 5 | Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/[Loss] for the period (after tax) and other Comprehensive Income] | (60.67) | (53.86) | 64.91 | (198.99) | 206.77 | 117.78 | 95 36 | (105.04) | 109.33 | (64.54) | 355.69 | 302 49 |
| 6 | Equity Share Capital | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 | 1,055.57 |
| 7 | Other Equity | | | | | | 411.39 | | | | | | (263.07) |
| 8 | Earnings Per Share a)(before Extraordinary items)(of Rs10/each) Basic & Diluted | (0.57) | (0.51) | 0.61 | (1.89) | 1.96 | (0.10) | 0.90 | (1.00) | 1.04 | (0.61) | 3.37 | 1.65 |
| | b) (After Extraordinary items)(of Rs10/each) Basic & Diluted: | (0.57) | (0.51) | 0.61 | (1.89) | 1.96 | 1.12 | 0.90 | (1.00) | 1.04 | (0.61) | 3.37 | 2.87 |

The above is an extract of the detailed format of Financial Results along with report of Statutory Auditors for the Nine month and quarter ended 31st Dec. 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular dated 5th July, 2016 and dated 10th August, 2016. The full format of the Financial Results along with report of Statutory Auditors for the guarter ended 31st Dec, 2019 is available on the BSE Limited website at www.bseindia.com and on the Company's website at www.keralaayurveda.biz.under "Investor" Section.

The Financial Results for the Nine month and three month ended Dec 31, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 15, 2020. The Limited Review of these results as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure) Requirements) Regulations, 2015 has been completed by the Statutory Auditors of the company.

Figures of the corresponding previous period have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to the classification of the current period.

The foreign exchange differences, if any, on monetary items shall be recognized at the year end.

Place : Bengaluru

Date: 15th Feb 2021

For and on behalf of the Board For Kerala Ayurveda Ltd.,

Executive Director (DIN:00226353)

Dr. K Anilkumar

Consolidated Finvest & Holdings Limited

[CIN No. L33200UP1993PLC015474] Registered Office :19thKM., Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr. Uttar Pradesh - 203408 Head Office: Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 Tel: 011-40322100, Email: cs_cfhl@jindalgroup.com

Website: www.consofinvest.com POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of section 108 & 110 and other applicable provisions, of the Companies Act, 2013 read with rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), Secretarial Standards on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force, Consolidated Finvest & Holdings Limited ("Company") is seeking approval from its Members for passing of Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated 12.02.2021 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting") only.

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular No.14/2020 dated 8" April 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated 13" April 2020, 22/2020 dated 15" June 2020, 33/2020 dated 28" September, 2020 and 39/2020 dated 31" December, 2020 ("MCA Circulars"), the Postal Ballot Notice along with the instructions regarding e-voting has been sent only by email on 15.02.2021 to all those Members, whose email address is registered with the Company or with the Depository Participants or Linkintime India Pvt. Ltd. (LIIPL) and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on 12.02.2021 ("Cut-off Date"). A copy of this Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company, the relevant section of the websites of the Stock Exchanges on which the Equity Shares of the Company are listed and the

Members may also note that in compliance to the above MCA Circulars the communication of assent / dissent of the members on the resolution proposed in this notice will only take place through the remote e-voting system Mrs. Akarshika Goel of Grover Ahuja & Associates, Practicing Company Secretaries

(Membership No.ACS 29525 and CP No. 12770) has been appointed as Scrutinizer for

conducting the e-voting processin accordance with law. In compliance with Section 108 and other applicable provisions of the Act read with related Rules, the Company has engaged the services of LIPL for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Voting rights of the Members shall be reckoned as on the Cut-off date. Person who is not a Member as on Cut-off Date should treat this Notice for information purposes only.

The Remote e-voting period will commence from 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, February 16, 2021 and will end at 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, March 17, 2021. Members shall not be allowed evoting thereafter and the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it The result of the Postal Ballot shall be announced on or before Friday, 19" March, 2021 by 5.00

P.M. IST at the Head office/Registered office of the Company and will also be displayed on the website of the Company i.e. http://www.consofinvest.com/investor_relations.htm besides being communicated to the Stock Exchanges and Registrar and Share Transfer Agents. The resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the Company for e-voting i.e. Wednesday, March 17, 2021.

In case of any queries/grievances, you may refer to Frequently Asked Questions ('FAQs') and Insta Vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000 or write an email to Mr. Anil Kaushal, Company Secretary of the Company by sending email at cs_cfhl@indalgroup.com.

For Consolidated Finvest & Holdings Limited Place: New Delhi

Company Secretary & Compliance Officer Date: 15.02.2021

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



AAVISHKAAR GROUP

AROHAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

limited company under the Companies Act, 1956, and consequently, the name of our Company was changed to 'ANG Resources Limited' and a fresh certificate of incorporation dated October 20, 1995 was issued by the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata (the "RoC"). Subsequently, the name of our Company was changed to 'Arohan Financial Services Limited' and a fresh certificate of incorporation dated March 25, 2008 was issued by the RoC. Thereafter, our Company was converted into a private limited company under the Companies Act, 1956 and the name of our Company was changed to 'Arohan Financial Services Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated September 28, 2010 was issued by the RoC. Our Company was then converted into a public limited company under the Companies Act, 2013 and the name of our Company was changed to 'Arohan Financial Services Limited'. A fresh certificate of incorporation dated May 25, 2018 was issued by the RoC. For further details in relation to changes in the name and the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 169 of the Draft Red Herring Prospectus dated February 14, 2021 ("DRHP"). Our Company is registered with the Reserve Bank of India (the "RBI") as a Non-Banking Financial Company - Micro Finance Institution ("NBFC-MFI") (certificate of registration No. B.05.02932). For further details, see "Government and Other Approvals" on page 335 of the DRHP.

Registered and Corporate Office: PTI Building, 4th Floor, DP 9, Sector 5, Salt Lake, Kolkata 700 091, West Bengal, India. Contact Person: Anirudh Singh G. Thakur, Company Secretary and Compliance Officer Tel: +91 33 4015 6000; E-mail: compliance@archan.in; Website: www.archan.in; Corporate Identity Number: U74140WB1991PLC053189

OUR PROMOTERS:

AAVISHKAAR VENTURE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED AND INTELLECTUAL CAPITAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF AROHAN FINANCIAL SERVICES LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A

PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING TO UP TO ₹[•] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF [•] EQUITY SHARES BY OUR

COMPANY AGGREGATING TO UP TO ₹8,500 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 27,055,893 EQUITY SHARES AGGREGATING TO UP TO ₹[◆] MILLION COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 1,925,158 EQUITY SHARES BY MAJ INVEST FINANCIAL INCLUSION FUND II K/S, UP TO 2,191,557 EQUITY SHARES BY MICHAEL & SUSAN DELL FOUNDATION, UP TO 9,302,853 EQUITY SHARES BY TANO INDIA PRIVATE EQUITY FUND II, UP TO 1,214,840 EQUITY SHARES BY TR CAPITAL III MAURITIUS AND UP TO 12,421,484 EQUITY SHARES BY AAVISHKAAR GOODWELL INDIA MICROFINANCE DEVELOPMENT COMPANY II LTD (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND EACH, INDIVIDUALLY, AS A "SELLING SHAREHOLDER" AND SUCH OFFER FOR SALE OF EQUITY SHARE BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING TO UP TO ₹[●] MILLION, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES NOT EXCEEDING 5% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% AND [•]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, OUR COMPANY MAY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMs") CONSIDER ISSUING SECURITIES ON A PRIVATE PLACEMENT BASIS FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO UP TO ₹1,500 MILLION, AT THE DISCRETION OF THE COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC (THE "PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRICE OF THE SECURITIES ALLOTTED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE DETERMINED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMs. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED (THE "SCRR").

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10 EACH AND THE OFFER PRICE IS [...] TIMES THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLMs AND WILL BE ADVERTISED IN [+] EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [+], [+] EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [+] AND [•] EDITIONS OF THE BENGALI DAILY NEWSPAPER [•] (BENGALI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF WEST BENGAL, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SUCH ADVERTISEMENT SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED (THE "BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (THE "NSE", AND TOGETHER WITH THE BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the other Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", and such portion, the "QIB Portion") provided that our Company and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "Anchor Investor Portion"), of which onethird shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from the Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, up to [•] Equity Shares will be available for allocation on a proportionate basis to Eligible Employees, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID (in case of Retail Individual Bidders), if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the self-certified syndicate banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. See "Offer Procedure", beginning on page 362 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on February 14, 2021. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the websites of the BRLMs i.e. Edelweiss Financial Services Limited, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited and SBI Capital Markets Limited at www.edelweissfin.com, www.icicisecurities.com, www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html and www.sbicaps.com, respectively. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21" day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI. Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an

investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does the SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 24 of the DRHP. Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus, as there may be material changes in the

Red Herring Prospectus from the Draft Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE.

For details of the share capital and capital structure of the Company, see "Capital Structure" on page 68 of the DRHP. For details of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 169 of the DRHP.

Edelweiss

Edelweiss Financial Services Limited 6" Floor, Edelweiss House

Off C.S.T. Road, Kalina Mumbai 400 098 Maharashtra, India Tel: +91 22 4009 4400 E-mail: arohan.ipo@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com Investor Grievance ID:

customerservice.mb@edelweissfin.com Contact person: Nishita John / Amitkumar Singh SEBI Registration No.: INM0000010650

OICICI Securities **ICICI Securities Limited**

Churchgate, Mumbai 400 020 Maharashtra, India Tel: +91 22 2288 2460 E-mail: arohan.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS NOMURA

(India) Private Limited Ceejay House, Level 11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018

Nomura Financial Advisory and Securities

group/asia/india/index.html Investor Grievance ID: investorgrievances-in@nomura.com Contact person: Vishal Kanjani / Sandeep Baid SEBI Registration No.: INM000011419

O SBI Capital Markets Limited 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade

Mumbai 400 005 Maharashtra, India Tel: +91 22 2217 8300 Email: arohan.ipo@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com Investor grievance e-mail: investor.relations@sbicaps.com

SEBI Registration No: INM000003531

Contact Person: Gaurav Mittal/ Janardhan Wagle

REGISTRAR TO THE OFFER **LINK**Intime Link Intime India Private Limited

C-101, 247 Park, 1st Floor L.B.S. Marg, Vikhroli West Mumbai 400 083 Maharashtra, India Tel: +91 22 4918 6200 E-mail: arohan.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance ID:

arohan.ipo@linkintime.co.in Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

On behalf of the Board of Directors

For AROHAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

Company Secretary and Compliance Officer

AROHAN FINANCIAL SERVICES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the

ICICI Securities Limited, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited and SBI Capital Markets Limited at www.edelweissfin.com, www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html and www.sbicaps.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "Risk Factors" section of the Red Herring Prospectus, when available. Potential investors should not rely on the DRHP

These materials are not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). These materials are not an offer of securities for sale into the United States, Canada or Japan. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States.

financialego.epan

Place: Delhi Date: 15.02.2021 Date : February 15, 2021

Place: Kolkata

Contact person: Vaibhay Saboo / Anurag Byas SEBI Registration No.: INM000011179

ICICI Centre, H T Parekh Marg, Maharashtra, India

Tel: +91 22 4037 4037 E-mail: arohanipo@nomura.com Website: www.nomuraholdings.com/company/

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

DRHP with SEBI on February 14, 2021. The DRHP will be available on the website of SEBI at www.nseindia.com, BSE at www.bseindia.com and the website of the BRLMs, i.e. Edelweiss Financial Services Limited,

AFFIDAVIT

I, Rajiv Kumar Pandey, Ex. Corporal, Ser No: 742596A, RAD/FIT son of Shyam Sundar Pandey and presently residing at : H No 20, 2nd Floor, 2nd Cross, Srashwathipuram, Nandini lay out, Bangalore (Karnataka) - 560096 and permanent resident of Vill Bholsar, Po Ekchari, Dist Bhagalpur (Bihar), Pin-813204 do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:

(a) That I have proceeded on discharge from service (Indian Air Force) wef 24th December 2007 after completion of 10 years 01 month and 9 days vide Discharge Certificate Dt 24th Dec 2007 issued by 11 BRD AF OJHAR, NASHIK. (b) That I was married to Shobha Rani at the time of Discharge from Indian Air Force, Name of my wife Shobha Rani is mentioned in Air Force as per POR taken at 11 BRD AF Oihar, Nashik.

(c) That I have married to Shobha Rani on 12th May 2007 at GAYA (Bihar). The date of birth of my wife is 08th December 1980 (Eighth December Nineteen

The details of my marriage are as follows:

Name of wife (before Marriage)

Name of wife (after Marriage) Date of Marriage Place of Marriage Forms of Marriage

Status of wife (before Marriage) Single (d) That I am producing this affidavit for the purpose of proof of marriage. (e) That what is stated above is true and correct to the best of my knowledge, information and belief nothing material has been concealed there from.

Finger print of all fingers of right hand of the wife with whom marrige has been solemnised.





Shobha Rani

12th May 2007

Gaya (Bihar)

Hindu

Shobha Rani Pandev

Place : Bangalore Signature of Deponant , Rajiv Kumar Pandey, Ex. Corporal, Ser No: 742596A, RAD/FIT son of Shyam Sundar Pandey the deponent above named, do hereby solemnly declare and verify that the contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed there from. Date: 10-02-2021

Place : Bangalore

Signature of Deponant

कंसीलिंडटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड सीआईएन : L33200UP1993PLC015474 पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर-203408 मुख्य कार्यालय : प्लॉट नं. 12, सेक्टर-बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स,

वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110 070 दूरभाष : 011-40322100, ई-मेल : cs cfhl@jindalgroup.com; वेबसाइट : www.consofinvest.com

पोस्टल बैलॅट सुचना

एतदद्वारा सदस्यगणों को सचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली. 2014 के नियम 20 एवं 22, इस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्नेट्रीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी साधारण सभा पर सचिवालयी मानकों, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''सूचीयन विनियमनों'') तथा वर्तमान में लागु उसके किसी सांविधिक संशोधन(नों)अथवा पुनरीक्षणों सहित, यदि कोई हो, विनियमनों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, एवं 110 तथा लागू होने वाले प्रावधानों (संचयी रूप से 'अधिनियम') के अनुपालन में जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनांस कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') केवल इलेक्ट्रानिक मतदान ''ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा पोस्टल वैलॅट सूचना तिथि 12.02.2021 (''पोस्टल बैलॅट सूचना'') रं

वे इस सचना को केवल जानकारी के लिये देखें। रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 16 फरवरी, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा बुधवार

17 मार्च, 2021 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। उसके बाद सदस्यों को ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी तथा उसके बाद एलआईआईपीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। पोस्टल बैलॅट परिणाम की घोषणा शुक्रवार, 19 मार्च, 2021 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) तक कम्पनी के

कॉर्पोरेट कार्यालय में की जायेगी तथा स्टॉक एक्सचैंजों एवं एलआईआईपीएल को अग्रसारित किये जाने के साथ ही साथ उसे कम्पनी की वेबसाईट http://www.consofinvest.com/investors relations.htm पर र्भ प्रदर्शित किया जायेगा। प्रस्ताव यदि वांछित बहुमत से पारित होता है तो उसे ई-वोटिंग के लिये कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, 17 मार्च, 2021 को पारित किया गया माना जायेगा।

उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा अथवा enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेजें सम्पर्क करें : दूरभाष : 022-4918 6000 अथवा श्री अनिल कौशल, कम्पनी के कम्पनी सचिव को cs cfhl@jindalgroup.com पर ईमेल भेजें।

अनिल कौशल

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 15.02.2021

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ऋण वसली अधिकरण. 600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मन्दिर के निकट, लखनऊ-226007 प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने तथा उपस्थिति के लिए समन्स

मुल आवेदन सं. 2019 का 1214 (ऋण वसली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली. 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रतिवादियों के लिए समन्स)

पंजाब नेशनल बैंक --आवेटक बैंक

श्री विनोद कुमार एवं अन्य

1. श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री देव राज शर्मा, एच. नं. 193, तुराब नगर, गाजियाबाद-201001 . श्री अवनीश शर्मा, पुत्र विनोद कुमार शर्मा, एच. नं. 234, तुराब नगर, गाजियाबाद-201001 श्रीमती सुनीता कुमारी, पत्नी श्री प्रभात शर्मा, एच. नं. 234, तुराब नगर, गाजियाबाद-201001 श्रीमती उर्मिला देवी, पत्नी श्री विनोद शर्मा, 193, तुराब नगर, गाजियाबाद-201001

ऊपर वर्णित आवेदन में आपको इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट अथव विधिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से दो सेट में पेपर बुक पद्धति में अपना जवाब तथा शपथ-पत्र (यदि कोई हो) दाखिल करना होगा तथा समन के प्रकाशन के बाद आवेदक अथवा उसके सलाहकार/ विधिवत अधिकत एजेन्ट के उसकी प्रति सर्व करने के बाद 30.06.2021 को 10.30 बजे पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा जिसमे विफल रहने पर आवेदन की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

---ਧਰਿਗਫੀਸ਼ਗ



फैबइंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यासय : 14, एन म्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैसास पार्ट-1, नई दिल्ली-110048,

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : U74899DL1976PTC008436 ई-मेल : mailus@fabindia.net, वेक्साइट : www.fabindia.com अतिविशिष्ट आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूबना

एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि फैबइंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ("कम्पनी") की अतिविशिष्ट वार्षिक आम बैठक ("ईजीएम") मंगलवार, 09 मार्च, 2021 को अप. 3,00 बजे आईएसटी में ऑक्टियो विज्ञाल माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 और 39/2020 के अनुपालन में कम्पनी को ऑदियो विज्ञल माध्यमों से ईजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गर्ड है। इसलिए इंजीएम की सूथना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए कम्पनी की इंजीएम ऑडियो विदियो मध्यमों के द्वारा आयोजित की जा रही है।

परिपत्रों के अनुपालन में ईजीएम की सुचना उन सभी सदस्यों को मेज दी गई है जिनके ई—मेल पते कम्पनी के पास पंजीकत हैं। ईजीएम की सचना कन्पनी की वेबसाइट www.fabindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdi.com पर भी उपलब्ध है। ई-मेल के गाध्यम से सुबना भेजने का कार्य 15 फरवरी, 2021 को पूरा कर लिया गया है।

कट-ऑफ तिथि 02 मार्च, 2021 को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइण्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्ययण रिमोट ई-बोटिंग या ईजीएम के दौरान ई-बोटिय सिस्टम के माध्यम से ईजीएम की सुचना में

निर्घारित व्यवसाय पर अपना वोट दे सकते हैं। सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे सुश्री मोनिका उप्पल अरोडा, कस्पनी सथिव से फोन 9313942073 या ई-मेल monika.uppal@fabindia.net पर सम्पर्क करके कम्पनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।

सदस्यों को एतदड़ारा सूचित किया जाता है कि: ईजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्मादन रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है:

रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 06 मार्च 2021 को प्रात: 9.00 बजे आईएसटी प्रारंग होगी; रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 08 गार्च, 2021 को साथ 5.00 बजे आईएसटी समाप्त होगी;

रिमोट ई-बोटिंग या ईजीएन में ई-बोटिंग सिस्टम के माध्यम से बोट के लिए योग्यता के निर्धारण हेत् कट-ऑफ तिथि 02 मार्च, 2021 है।

08 गार्च, 2021 को सार्य 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-बोटिंग गाँड्यूल बंद कर दिया जाएगा; ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधियहित करता है और ईजीएम की सूथना भेजे जाने के बाद कम्पनी का

सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 02 मार्च, 2021 को शेवर धारण करता है, वह evoling@nsdi.co.in पर अनुरोध भेजकर अपना लॉगड्न आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि व्यक्ति पहले से ही एनएसरीएल के साथ ई-बोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वह बोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है-. सदस्यगण कृपया नोट करें कि : क) बोटिंग के लिए कथित तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट

ई-वोटिंग मॉंडयल हटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) ईजीएम में ई-दोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और जो सदस्वगण ऑक्कियो विकियो माध्यमां से ईजीएम में उपस्थित होते हैं तथा जिन्होंने प्रस्ताव पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के मध्यम से नहीं दिया है और उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे ईजीएम में ई-बोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे; और ग) ऐसे सदस्यगण जो ईजीएम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना बोट दे देते हैं, वे भी ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और घ) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सुविधा माने के लिए डकदार होगा। viii. ईजीएम की सूचना एनएसढीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

डिमेटिरियलाइण्ड प्रारूप, मौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया ईजीएम की सूचना में दी गई है। ब्यौरा कन्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

इं-बोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ / शिकायत के लिए सदस्यगण https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए जक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एकएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-बोटिंग युजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 22 2990 पर कॉल कर सकते हैं या श्री अनुभव सक्सेना (सहायक प्रबंधक), नेरानल सिक्योरिटीज दियोंजिटरी लिमिटेंड, ट्रेंड वर्ल्ड, 'ए' विंग, बीधा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से पदनामित ई-मेल आईडी evoling@nsdl.co.in or amitv@nsdl.co.in पर या कोन .+91.022.24994360 पर सम्पर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से बोटिंग से जुड़ी उनकी शिकायतों को समाधान करेंगे।

ऑढियो विढियो मध्यमों से बैठक में पहुंच एवं भागीदारी हेतु तकनीकी सहायता प्राप्त करने के इत्स्कृ सदरवगण श्री प्रणव कुमार भरतियात से उनके ई-मेल आई.बी p.bharti@fabindia.net या फोन 91. 7042495201 पर सम्पर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेशान्सार

दिनांक : 15.02.2021

किया गया है।

शुद्धिपत्र

नीमाडी की जगह समाप्त वर्ष और टिप्पणी नंa. 1 की तिथि 13 फरवरी, 2021 की जगह 31 दिसम्बर

2020. और निवसे माग की तिथि 13 फरवरी

2021 की जगह 13 फरवरी, 2020 का उल्लेख हुआ था। अतः निवेदन है कि 6वीं और 7वीं

कॉलम की शीर्ष में समाप्त नीमाड़ी और टिप्पणी

नं0. 1 तथा निचले भाग की तिथि 13 फरवरी, 2021 ही पदा जाए। त्रुटि के लिए खेद व्यक्त

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE

OF DEFENDANT (Order 5 Rule 20 of the Code of Civil

Procedure) IN THE COURT OF MS. SUKHVINDER KAUR

> LD. DJ (COMM-02) SHAHDARA, KARKARDOOMA COURTS, DELHI.

> > **VERSUS**

HOUSE NO. 668, GALI NO. 6, SABOLI, NEAF

GOVERNMENT SENIOR SECONDARY

WHEREAS you are intentionally evading service

of summons it is hereby notified that if you shall

not defend the case on the 01 MARCH 202

10.00 a.m. fixed for the final disposal, it will be

Given under my hand and the seal of the cour

Note: If the normal physical functioning of the

court does not resume till the next day you may

https://delhidistrictcourts.webex.com/meet/re aderdjcomm02shahdara and file the writter statement/reply through email at the email i

readerdicomm02@gmail.com within stipulated

appear using the

SCHOOL, NEW DELHI- 110093.

heard and determined ex-parte.

... PLAINTIFF

... DEFENDANT

Particulars

ASK AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED

CS COMM NO. 277/2020

DHARMJEET

DHARMJEET

this 06 02 2021

period.

SEAL

कृते फैंबइंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड मोनिका उपाल अरोडा कम्पनी समिव एम. न. ए-17485

PHOENIX

ऋण वसली अधिकरण. 600/1, युनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मन्दिर के निकट, लखनऊ-226007 (क्षेत्राधिकार: उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल का भाग

तिथि: 8.2.2021 (ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रतिवादियों के लिए समन्स ओ.ए. नं. 2019 का 1639

प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने तथा उपस्थिति के लिए समन्त्र

पंजाब नेशनल बैंक --आवेदक बैंक [चन्दरनगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)]

---प्रतिवादीगण मै. मा दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी एवं अन्य सेवा में.

1. मै. मा दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री राहल बंसल, पताः 155, सिहानी गेट, गाजियाबाद 2. श्री राहुल बंसल, पुत्र श्री मनोहर लाल, पताः 199, मालीवारा बसंत रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)

3. श्रीमती जगवीरी बंसल (गारन्टर), पत्नी मनोहर लाल, एच. नं. ७ए/९, नसीरपुर, गाजियाबाद, उ.प्र. 4. श्रीमती मधुबाला (गारन्टर), पत्नी नरेन्दर कुमार बंसल, एच. नं. 155, सोहनलाल सिहानी गेट, गाजियाबाद

ऊपर वर्णित आवेदन में आपको इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट अथवा विधिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से दो सेट में पेपर बुक पद्धति में अपना जवाब तथा शपथ–पत्र (यदि कोई हो) दाखिल करना होगा तथा समन के प्रकाशन के बाद आवेदक अथवा उसके सलाहकार/ विधिवत अधिकृत एजेन्ट के उसकी प्रति सर्व करने के बाद 19.07.2021 को 10.30 बजे पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

ऋण वसली अधिकरण 600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतृ मंदिर के निकट, लखनऊ 226007 (क्षेत्राधिकारः उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल का भाग)

प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने तथा उपस्थिति के लिये समन्स

तिथि: 05.02.2021 (ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रतिवादियों के लिये

ओ.ए. नं. 2019 का 1635

पंजाब नेशनल बैंक ..आवेदक बैंक [चन्दर नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)] मै. विभ इलेक्टो रिपेअरिंग वर्क्स एवं अन्य पतिवादीगण

सेवा में 1. मै. विभ इलेक्टो रिपेअरिंग वर्क्स, द्वारा उसके प्रॉप्साईटर समन सिरोही बी-5, आर.के, परम, गोविन्द पुरम के निकट, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.)

2. श्रीमती सुमन सिरोही, पत्नी जयदीप सिरोही, बी-5, आर.के. पुरम, गोविन्द पुरम के निकट, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) 2रा पताः निवासीः एच-143, गोविन्द पुरम, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) ऊपर वर्णित आवेदन में आपको इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट अथवा विधिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से दो सेट में पेपर बुक पद्धित में अपना जवाब तथा शपथ-पत्र (यदि कोई हो) दाखिल करना होगा तथा समन के प्रकाशन के बाद आवेदक अथवा उसके सलाहकार/विधिवत

अधिकृत एजेन्ट को उसकी प्रति सर्व करने के बाद 16.07.2021 को 10.30 बजे पर्वा. में इस अधिकरण

के समक्ष उपस्थित होना होगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति मे

ऋण वसली अधिकरण, लखनऊ

बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 510, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001,

ई–मेल : bclenterprisesItd@gmail.com, वेबसाइट: bclenterprisesItd.in, सम्पर्क: 011-4308 0469, CIN : L65100 DL 1985PLC021467

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित एकीकृत उद्वरित वित्तीय परिणाम (रू० लाखों में ईपीएस को छोडकर) समाप्त नौमाही समाप्त वार्षिक **Particulars** No. (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अंकेक्षित) 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 30/09/2020 31/03/2020 140.08 53.48 14.03 205.27 53.31 65.92 संचालन से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण 388.48 23.51 0.97 425.00 (7.10) (89.14) मदों से पूर्व) कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण 23.51 425.00 (89.14) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण 287.20 19.84 0.97 318.03 (7.10)(89.84)अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/ (हानि) शामिल (कर के बाद) 287.20 19.84 0.97 318.03 (7.10)(89.84)एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)) (संदर्भ नोट 2) चुकता इक्वीटी शेयर पुँजी (सममुल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स) 583.00 583.00 583.00 583.00 583.00 583.00 प्रति शेयर आय (रू० 10/- प्रति शेयर्स) (संचालन जारी एवं बंद करले के लिए)

तरल:

1. सेबी (सूची ओब्लीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अर्न्तगत 31 दिसम्बर, 2020 को उपरोक्त समाप्त तिमाही एवं नौमाही के उद्धरित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किया गया। अनअंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तारित पर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट एवं साथ में स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bseindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

0.49

0.49

0.34

0.34

0.01

0.01

0.54

0.54

कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2019 से इंडियन एकाऊटिंग स्टैन्डर्ड ("आईएनडी एएस") ग्रहण किया है तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित साथ में उसके अंतर्गत जारी पठित प्रसांगिक नियमन अनुसार ये वित्तीय परिणाम आईएनडी एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिग" एवं सामान्तया इण्डिया में स्वीकार किये जाने वाले मान्यता माप सिद्वान्तों के अनुसार तैयार किये गये।

कृते बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

(0.12)

(0.12)

हस्ता०/-महेन्द्र कुमार शारदा

(1.54)

(1.54)

(प्रबन्ध निर्देशक)

DIN: 00053042

₹ In Lacs

1.03

1.03

तिथि: 15.02.2021

स्थान: नई दिल्ली

PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1987PLC030092 Regd. Office: 3rd Floor, Gopala Tower, 25, Rajendra Place, New Delhi -110008

Tel.: (91-11) 2574 7696, 2575 1934/35/36 | Fax: (91-11) 2575 1937/38 | Email: narendermakkar@yahoo.com | Website: www.phoenixindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS PERIOD ENDED 31.12.2020

1.10

1.10

0.23

0.23

0.00

0.00

STANDALONE CONSOLIDATED QUARTER ENDED QUARTER ENDED **NINE MONTHS PERIOD** NINE MONTHS PERIOD **Particulars** 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED 1,174.43 1,174.46 Total income from operations (net) 678.78 1,924.82 3,467.05 678.78 1,924.82 3,467.05 Net Profit / (Loss) from ordinary activities 41.94 13.96 212.30 189.52 44.05 2.95 200.44 178.41 38.08 11.72 204.57 183.90 Net Profit / (Loss) for the period after tax 38.26 0.71 192.71 172.79 (after Extraordinary items) Equity Share Capital 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous Earnings Per Share (before extraordinary

Notes:

Place: Delhi

Date: 13/02/2021

items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted

Earnings Per Share (after extraordinary

items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted

5.23

(4.66)

0.81

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13.02.2021

0.07

0.07

0.23

0.23

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's Website http://Phoenixindia.com

1.22

1.22

By order of the Board For Phoenix International Limited

1.15

1.15

Narender Kumar Makkar

Director Din No.: 00026857

कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- बीजी-223, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर, जीटी करनाल रोड, दिल्ली-110042, Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com, website:www.kalyanicommercialsltd.com Contact No. 011-43063223, 011-47060223; CIN: L65923DL1985PLC021453 31 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के उद्वरित एकीकृत एवं समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

एकीकृत परिणाम

(रू० लाखों में, प्रति शेयर डाटा को छोड़कर)

SI. No. समेकित परिणाम समाप्त तिमाही तिमाही तिमाही नौमाही नौमाही वार्षिक तिमाही तिमाही तिमाही नौमाही नौमाही वार्षिक 30/09/2020 31/12/2019 31/03/2020 30/09/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/03/2020 (अंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अंकेक्षित) 22772.46 4,199.11 6270.47 5921.64 17467.50 8888.09 4744.54 15,210.31 15153.65 45138.75 64068.29 परिचालन से कुल आय 1293.55 अवधि के निए नेट लाभ/(हानि) (करे, विशिष्ट एवं/अथवा 34.57 54.44 16.07 42.37 36.01 112.74 23.65 123.73 25.44 192.22 61.86 113.57 असाधारण मदों से पहले) अवधि के निए नेट लाभ/(हानि) कर से पहले (विशिष्ट एवं/ 34.57 54.44 16.07 42.37 36.01 112.74 23.65 123.73 25.44 192.22 61.86 113.57 अथवा असाधारण मदों के पश्चात्) 4 अवधि के निए नेट लाभ/(हानि) कर के बाद (विशिष्ट एवं/अथवा 23.52 52.31 11.79 29.19 26.53 88.40 12.18 102.60 19.54 159.62 45.66 68.52 असाधारण मदों के पश्चात्र अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (व्यापक 23.52 52.31 11.79 29.19 26.53 95.45 12.18 102.60 19.54 149.89 45.66 75.57 लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक एवं अन्य व्यापक आय मिलाकर (कर पश्चात्)) (संदर्भ नोट न० 2) प्रदत इक्विटी शेयर कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7 778.82 778.82 778.82 778.82 791.83 791.83 791.83 अन्य इक्वीटी 791.83 प्रति शेयर आय (रू० 10/- प्रत्येक) परिचालन जारी तथा बंद करने के लिए) : 5.23 9.55 14.74 2.06 7.56 Basic: (4.66)0.81 0.57 1.47 10.26 4.48 -1.14

टिप्पणी:

Diluted:

सेबी (सूची दायित्वों एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015 के विनियमन 33, के अर्न्तगत उपरोक्त 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के उद्वरित अंनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किया गया। उपरोक्त तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट viz, www.nseindia.com तथा साथ में कम्पनी की वेबसाइट viz, www.kalyanicommercialsltd.comपर उपलब्ध है।

1.47

9.55

10.26

4.48

-1.14

2.. कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2019 से इंडियन स्टैन्डर्ड ("आईएनडी एएस") ग्रहण किया है तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित साथ में उसके अंतर्गत जारी पिठत प्रसांगिक नियमन अनुसार ये वित्तीय परिणाम आईएनडी एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग" एवं सामान्तया इंण्डिया में स्वीकार किये जाने वाले मान्यता माप सिद्वान्तों के अनुसार तैयार किये गये। बोर्ड के आदेशानुसार

कृते कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड हस्ता०/-

2.06

14.74

सौरभ अग्रवाल (पूर्णकालिक निदेशक DIN: 02168346

7.56

कार्यवाहियों के परिप्रेक्ष्य में आयी सभी लागतें, प्रभार तथा व्यय।

www.readwhere.com

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्तीय सेवाएं विभाग) दूसरी मंजिल, पारस टावर, माजुरा, निरंजनपुर, सहारनपुर रोड़, देहरादून माँग सुचना

बैंक तथा वित्तीय संस्थान के बकायों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना आरसी/39/2020 डायरी नं. : 12

सेवा में, (सीडी–1) मैसर्स एसएमसी इलेक्टॉनिक्स, ऑफिस–9, इण्डरिटयल एस्टेट, बाजपुर,

(सीडी-2) श्री चरनजीत सिंह पुत्र स्व. श्री मनमोहन सिंह, निवासी बी-128,

पुष्पांजिल एन्कलेव, प्रीतमपुर दिल्ली। दूसरा पता - पुत्र स्व. श्री मनमोहन सिंह, प्लॉट नं. 7/1 ग्राम रामपुरा देहात, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर।

(सीडी–3) श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा, निवासी बी–8/2 दलीप पार्क मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201201.

पीठीसीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून द्वारा ओए / 313/2019 में जारी आदेशों के अनुपालन में निर्गत वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि

आप (संयुक्त रूप से तथा अलग—अलग) पर बकाया हो गया है। 2. आपको एतद्दारा इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि अदा करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर बँक तथा वित्तीय संस्थानों के बकायों

की वसूली अधिनियम, 1993 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार वसूली की जायेगी।

4. एतद्वारा आपको अगली कार्यवाही हेत् 05/03/2021 को 10.30 बजे पूर्वा. अघोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

(अ) ऐसे व्याज जो प्रमाणपत्र/क्रियान्वयन कार्यवाहियों की इस सूचना के तुरन्त पश्चात प्रारम्भ होने वाली अवधि हेतु देव हों

(ब) इस सूचना तथा वारंट की सेवा एवं बकाया राशि की वसूली हेत् अन्य सभी की गयी

वसुली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

निर्दिष्ट प्रस्तावों को पारित करने के लिये अपने सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त कर रही है। अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार तथा साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 तिथि 15 जून, 2020, 33/2020 तिथि 28 सितम्बर, 2020 तथा 39/2020 तिथि 31 दिसम्बर, 2020 के साथ पठित साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 (''एमसीए सर्क्युलर्स'') के माध्यम से साधारण सभाओं के आयोजन/पोस्टल बैलॅट प्रक्रिया के संचालन के लिये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार ई-वोटिंग से जुड़ी निर्देशों के साथ पोस्टल बैलॅट सूचना ऐसे सभी सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस अथवा लिंकइनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के पास पंजीकृत हैं तथा जिनके नाम 12.02.2021 (''कट-ऑफ तिथि'') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में शामिल हैं, को 15.02.2021 को ईमेल द्वारा भेज दी गई है। इस पोस्टल बैलॅट सचना की प्रति कम्पनी की वेबसाईट स्टॉक एक्सचैंजों जहां कम्पनी की इक्विटी शेयर सचीबद्ध हैं. की वेबसाईटों के संबंधित खंड तथा एलआईआईपीएल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। सदस्यगण ध्यान रखें कि उक्त एमसीए सर्क्युलर्स के अनुपालन में इस सूचना में प्रस्तावित प्रस्ताव पर सदस्यों की सहमति/असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा हीं प्राप्त की जायेगी। विधि के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिये ग्रोवर आहूजा एंड एसोसिएट्स कार्यरत कम्पनी सेक्रेट्रीज के श्रीमती आकर्शिका गोयल (सदस्यता सं. एसीएस 29525 तथा सी पी नं. 12770) को पर्यवेक्षक नियुक्त संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुपालन में अपर सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने एलआईआईपीएल की सेवाएं प्राप्त की है। सदस्यों के मताधिकार की गणना कट-आफ तिथि को की जायेगी। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं.

14.02.2021 को जनसत्ता (हिन्दी, दिल्ली संस्करण में प्रकाशित सेनल्यूब इंडस्ट्रीज सिमिटेड व 31.12.2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के किसी प्रकार की पूछताछ के लिये आप https://instavote.linkintime.co.in के हेल्प खंड में सदस्यों के लिये लिए अलेखापरीक्षित वितीय परिणामों के विज्ञापन में 6वीं और 7वीं कॉलम के शीर्ष में समाप्त

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड के लिटे

शिल्पी केबल टेकनोलॉजीज लिमिटेड - परिसमापन में सीआईएन नंबर : एल६४२० १डीएल२००६पीएलसी १५०७५३

ई-नीलामी बिक्री सूचना परिसंपत्तियों की बिक्री 1. बीएमडब्ल्यु520आई कार, निर्माण वर्ष 2010, डिजल, कार चली - 1,19,000

 दिल्ली कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय फर्नीचर एवं फिक्सचर। ई-नीलामी, वेबपोर्टल https://ncltauction.auctiontiger.net पर 23 फरवरी, 2021 को पूर्वाहन 2 बजे से अपराहन 3 बजे तक की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर +91 8828576197 / +91 9930248351

पर फोन करें या ई-मेल आईडी sctl.lq@gmail.com पर ई-मेल भेजें। विस्तृत बिक्री

सूचना, वेबसाइट: https://ncitauction.auctiontiger.net पर अपलोड की गई है।

कृते शिल्पी केबल टेकनोलॉजीज लिमिटेड - परिसमापन में हजेफा फाखरी सीताबखान

आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00031/2017-18/10115 sctl.lq@gmail.com; huzefa.sitabkhan@gmail.com

दिनांक : 16 फरवरी, 2021 स्थान : मुम्बई

किलोमीटर (लगभग)

दिनांक : 11.01.2021 बैंक ऑफ बड़ौदा मैसर्स एसएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य

जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

दूसरा पता – प्लॉट नं. 7/1 ग्राम रामपुरा देहात, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर।

वसुली की तिथि तक 18/07/2019 से वादकालीन एवं 11.55% की दर से भावी मासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित रु. 438250 0.15 (रुपये तैतालीस लाख बयासी हजार पाँच सी एवं पन्द्रह पैसे मात्र) तथा रु. 115400 (रुपये एक लाख पन्द्रह हजार चार सौ मात्र) की लागत

3. एतद्वारा आपको सुनवाई की अगली तिथि तक या इससे पूर्व अपनी आस्तियों के विवरणों की घोषणा का शपथपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

5. उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित का भुगतान भी करना होगा :

दिनांक 11/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा इस अधिकरण की मुहर सहित जारी।

स्थानः दिल्ली तिथि: 15.02.2021